

## **Aditya Vision Limited**



CIN: L32109BR1999PLC008783 | GSTIN: 10AAECA0801E1ZS A 35E Listed Company

Date-November 13, 2024

To

**BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers **Dalal Street** 

**Scrip Code: 540205** 

Mumbai-400 001

**National Stock Exchange of India Limited** 

**Exchange Plaza** 

Bandra Kurla Complex, Bandra (East)

Mumbai- 400051

Symbol-AVL

Sub: Newspaper advertisement pertaining to Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended September 30, 2024

Dear Sir/Ma'am

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement pertaining to Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and half year ended September 30, 2024.

The advertisement was published in Economic Times (English) and Aj (Hindi) newspapers on November 13, 2024.

This is for your information and record.

Thanking you

Yours faithfully

For Aditya Vision Limited

Akanksha Arya **Company Secretary** 









## PREMIER | SCHAEFFLER



# A Partnership that Delivers Excellence to the Steel Industry

At Premier Bearings, we understand the critical needs of the Steel Industry and ensure utmost reliability to power their performance. For the last four decades, our strong partnership with Schaeffler has resulted in unrelenting consistency in delivering world-class industrial bearing solutions. This is reflected in the supply reliability for the Schaeffler Mancrodur Bearings that are designed to match the extreme operating conditions of rolling mills, ensuring significantly longer operating life.

To find out more, get in touch with us.

### Premier India Bearings Ltd.

Head Office: 1407, 'Diamond Heritage,' 16 Strand Road,

Kolkata - 700001

Ph.: +91 33 40332000 • E-mail: admin@inpremier.com Web: www.premierbearing.com

Kolkata • Ahmedabad • Bengaluru • Bharuch • Bhopal • Bhiwadi Chandigarh • Chennai • Coimbatore • Gandhidham • Gurugram-NCR Guwahati • Hosur • Hospet • Jamshedpur • Kochi • Ludhiana • Mumbai Nashik • Raipur • Surat • Trichy • Vijayawada









## SHYAM STEEL

**flexi STRONG** TMT REBAR Not just Strong, also Flexible



A TMT rebar with high strength might seem like an obvious choice, because to make a home strong, we need strength in a TMT rebar. But, to make a home stand firm for generations – protecting it from natural calamities and rigours of weather – we need another equally important attribute in a TMT rebar, which is **flexibility**.

Therefore, to build a strong as well as long-lasting home, we must have a TMT rebar with **high flexibility** as well as **adequate strength**.

The Bureau of Indian Standards and eminent professors of renowned IITs attest the same.

But it is very difficult to have more of both – strength and flexibility – since increasing the strength would decrease the flexibility (being inversely proportional). After many years of research and consultation with experts, Shyam Steel has designed and created Shyam Steel Flexi-Strong TMT rebar – a TMT rebar, which has high flexibility as well as adequate strength. This ensures that your home will be strong and last for generations.

Select Shyam Steel Flexi-Strong TMT rebar, whose unique and perfect mix of flexibility and strength keeps your dream home forever strong.



## **Pure Steel**

assured

Made from high quality iron ore, in integrated steel plants, quality ensured by NABL.

## 70 Years

of experience

Delivering excellence

in construction steel for seven decades.

## Mega Projects & dream homes

The same TMT, building hundreds of national projects and millions of dream homes across the nation.

Toll Free 1800 120 4007 | • • • Now you can also order online at www.shop.shyamsteel.com

## **ADITYA VISION LIMITED**

CIN - L32109BR1999PLC008783

Reg. office- Aditya House, M-20, Road No. 26, S K Nagar, Patna-800001, Bihar

# EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

(All figures in INR Crores except EPS)

Particulars -		Quarter ended			Half Year ended		Year ended
		30-09-2024	30-06-2024	30-09-2023	30-09-2024	30-09-2023	31-03-2024
1.	Total income from operations	377.70	890.46	315.60	1268.16	958.20	1749.81
2.	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	15.98	71.82	12.32	87.80	61.65	106.67
3.	Net Profit /(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	15.98	71.82	12.32	87.80	61.65	106.67
4.	Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	12.21	53.08	9.63	65.29	47.05	77.07
5.	Total Comprehensive Income (after tax)	12.21	53.08	9.63	65.29	47.05	77.07
6.	Equity Share Capital (face value of Re.1/- each)	12.86	12.86	12.03	12.86	12.03	12.81
7.	Earning per share (in Rs.)						
	(a) Basic (after split up)	0.95	4.14	0.80	5.09	3.91	6.37
	(b) Diluted (after split up)	0.95	4.11	0.80	5.08	3.91	6.32

## Notes to Standalone Financial Results:

- 1. The above financial results for the quarter and half year ended September 30, 2024 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on Tuesday, November 12, 2024.
- The Financial Results have been reviewed by the Auditors appointed for this purpose as required under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements).
- 3. These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (IND AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 as amended and other recognized accounting practices and policies to the extent possible.
- 4. The Company opened 11 showrooms in H1FY25 (including 6 stores in this quarter) taking its total stores count to 156 as on September 30, 2024.
- 5. In this quarter Company did a stock-split of 10 new shares for 1 old share ratio consequently which, paid-up value of shares of Rs. 10 each previously has been split into 10 new shares of Rs. 1 each.
- 6. Consequent to the split of shares, EPS of previous years have been adjusted accordingly to make it comparable.
- 7. Shares of the Company have been now listed on National Stock Exchange also for trading.
- 8. The Company's business activity falls within a single primary business segment of Retail Business of electronic products such as Consumer Electronics, home appliances, mobility and IT products. As such, reporting is done on a single segment basis.
- 9. Sale of Company's products are seasonal in nature and hence it is not comparable sequentially.
- 10. The financial result of the company is also available on stock exchange website and on the company website <a href="https://www.adityavision.in">www.adityavision.in</a>

For and on behalf of Board of Directors of Aditya Vision Limited

Place : Patna Sd/Date : 12.11.2024 Akanksha Arya (Company Secretary)



A MEMBER OF THE OBEROI GROU

**CIN**: L55101WB1949PLC017981

Registered Office: N-806-A, 8th Floor, Diamond Heritage Building 16, Strand Road Fairley Place, Kolkata - 700 001, India Phone: 91-33-22486751 Fax: 91-33-22486785 Website: www.eihltd.com Email ID: isdho@oberoigroup.com

# EXTRACT OF STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2024

(Rs. in Crores)

	(175. III Cioles										
			Standalone	I		Consolidated	ı				
		3 months ended 30.09.2024 UNAUDITED	6 months ended 30.09.2024 UNAUDITED	3 months ended 30.09.2023 UNAUDITED	3 months ended 30.09.2024 UNAUDITED	6 months ended 30.09.2024 UNAUDITED	3 months ended 30.09.2023 UNAUDITED				
1	Total Income from operations	557.68	1,055.50	489.58	622.58	1,182.49	552.49				
2	Net Profit/(Loss) before tax (before Exceptional and/or Extraordinary items)	153.17	269.71	113.90	177.29	312.95	130.36				
3	Net Profit/(Loss) before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	151.16	265.55	113.90	175.28	308.79	130.36				
4	Net Profit/(Loss) after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	114.43	199.78	85.18	132.70	229.45	94.14				
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	112.62	197.58	84.56	140.18	234.22	98.84				
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value - Rs. 2 each)	125.07	125.07	125.07	125.07	125.07	125.07				
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) in the audited Balance Sheet as at 31st March, 2024		3,443.51		3,814.48						
8	Earnings per Equity Share on net profit after tax (fully paid up equity share of Rs. 2 each):										
	(a) Basic	1.83	3.19	1.36	2.08	3.55	1.49				
	(b) Diluted	1.83	3.19	1.36	2.08	3.55	1.49				

## NOTES

- 1 The above is an extract of the detailed format of the Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of Financial Results is available on the Stock Exchange websites, <a href="www.bseindia.com">www.bseindia.com</a>, <a href="www.bseindia.com">www.nseindia.com</a> and on the Company's website, <a href="www.eihltd.com">www.eihltd.com</a>.
- 2 The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meetings held on 12th November, 2024.

## VIKRAMJIT SINGH OBEROI

Managing Director and Chief Executive Officer
(DIN: 00052014)

Sd/Mumbai
12th November 2024

नौबतपुर में ट्रक और हाइवा की

टक्कर में हाइवा चालक की मौत

नौबतपुर( आससे )। नौबतपुर में हाइवा और ट्रक की सीधी टक्कर मे

हाइवा चालक की मौके पर हीं मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक जख्मी हो

गया। घटना नौबतपुर- बिऋम रोड एनएच 139 पर चैनपुरा- दरियापुर

बीओआई के समीप मंगलवार की सुबह 8.30 बजे के आसपास हुई। मृतक 47 वर्षीय कमलेश कुमार झारखंड के पलामू का निवासी था। घटना के बाद करीब एक घंटे तक इस मार्ग पर वाहनों का परिचालन ठप रहा। सूचना पाते हीं पुलिस पहुंची और दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर ट्रैफिक चालू करवाया और शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया। पुलिस के पहुंचने के पूर्व हीं स्थानीय नागरिकों ने ट्रक में फसे चालक को बाहर निकाला और इलाज के लिए नौबतपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद चिकित्सकों ने उसे एम्स रेफर कर दिया।

# पैक्स चुनाव के लिए दूसरे दिन भी दर्जनों ने भरा नामांकन पर्चा

पुनपुन प्रखंड में 10 उम्मीदवारों ने

बिहटा (आससे )। अवैध बाल

ओवरलोडिंग को लेकर सोमवार की

देर रात को बिहटा, अमहरा, नेउरा

पुलिस एवं खनन विभाग ने संयुक्त रूप

से थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध

बालू कारोबारी के खिलाफ अभियान

चलाया ।जिसमे अमहरा थाना क्षेत्र के सिकरिया में दो एवं डिहरी में एक

धर्मकांटा के आर में हो रही बालू का

अवैध कारोबार का पर्दाफाश

किया।छापेमारी के दौरान अवैध रूप

से रखे करीब 5000 सीएफटी बालू के

नेउरा थाना क्षेत्र में बालू ओवरलोड

से युवक का शव बरामद

फत्हा (आससे )। मंगलवार को

भरा गड्ढे से फतुहा पुलिस ने एक युवक

बताया कि आसपास के ग्रामीणों द्वारा

सूचना मिली कि फतुहा पटना राष्ट्रीय

राजमार्ग से पश्चिम पितम्बरपुर गांव के

समीप पानी भरा गड्ढे में एक युवक का

मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुच

शव को अपने कब्जे में ले उसे

पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया

ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद

ही युवक का मौत का कारण पता चल पाएगा

। समाचार लिखे जाने तक शव का

बिहटा ( आससे )। जदयू प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज बिहटा प्रखंड

के आइबी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्टी को मजबूत करते हुए

पंचायत स्तर पर ले जाना. और सरकार के विकास कार्य को जनता तक

पहुंचाना इस अवसर पर मुख्य रूप से एम एल सी रविन्द्र सिंह, अशोक कुमार

सिंह, अध्यक्ष,जदय ग्रामीण जिला, पटना, सविता नटराज, प्रभारी,मनेर

विधानसभा उपस्थित रहे ।राजु यादव, अध्यक्ष, जदयू बिहटा प्रखंड ने अध्यक्षता

किये। बिहटा प्रखंड के सभी पेंचायत अध्यक्ष के साथ साथ, शुशील कुमार,नगर

परिषद बिहटा जदयू अध्यक्ष,अजय कुमार पिंटू,कौशल सिंह, हरिद्वार सिंह,राम कुमार मिश्रा,राम बालक पंडित,अभय कुमार वर्मा,मोहन यादव, सुनील कुमार

जमीनी विवाद में महिला समेत दो घायल

को लेकर मारपीट की घटना में एक महिला समेत दो लोग घायल हो गए। इस

संबंध में मसौढ़ी थाना में लिखित आवेदन दिया गया है। दिए गए आवेदन के

आलोक में पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिए गए आवेदन में घायल

महिला गुड़िया देवी का कहना है कि जमीनी विवाद को लेकर पास के रहने

वाला दिलीप कुमार कारू बिदं आदि ने मुझे एवं निरंजन कुमार को मारपीट

कर घायल कर दिया। ईंट पत्थर एवं लोहे के रड से मारा-पीटा गया है। जिससे

हम दोनों लोग घायल हो गए हैं। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन करने

मसौढी ( आससे )। मसौढी थाना क्षेत्र के पकरी गांव में जमीनी विवाद

एवं प्रो0 बिपिन बिहारी तथा अन्य पार्टी पदाधिकारी शामिल हए।

अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है।

**मसौढ़ी (आससे)।** मसौढ़ी और बैंड बाजा घोड़े के साथ प्रखंड होंगे। वहीं पुनपुन प्रखंड की बात करें सतनारायण प्रसाद, तिनेरी पंचायत से के दुसरे दिन अध्यक्ष पद के लिए 22 कु.मार,चंढोस पंचायत से उमेश नपन में चल रहे पैक्स चनाव को मख्यालय में इन दिनों नामांकन का तो 23 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और उज्जवल सिंह, रेवॉ पंचायत से पैक्स कर नामांकन के दूसरे दिन 18) दौर चल रहा है। आज नामांकन का 12,217 मतदाता है बहरहाल मसौढ़ी अध्यक्ष के लिए गणेश प्रसाद शर्मा

कुल 12 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा

आपको बता दें कि मसौढ़ी प्रखंड

छापेमारी में ओवरलोड बालू के साथ दो लोडर और नौ ट्रेक्टर जब्त, जुमाना

का जुर्माना लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज

कराई है ।इस संबंध में खनन

पदाधिकारी ने बताया कि बिहटा के

आवास योजना शहरी सहित पांच सत्री

मांगों को लेकर नगर परिषद के

उपाध्यक्ष व दो पार्षदों ने अपनी ही

उपाध्यक्ष शंकर यादव व पार्षद भूपेन्द्र

गुप्ता परिषद के कार्यालय समीप ही

आमरण अनशन पर बैठ गए । अनशन

तीनों थाना पुलिस के साथ संयुक्त रूप गया है।जब्त वाहनों पर जुर्माना लगाते

नामांकन पर्चा दाखिल किया है। वहीं कुल 23 उम्मीदवार और पुनपुन में

को लेकर चल रहे नामांकन इन दिनों में 17 पंचायत में से 13 पंचायत में

प्रखंड कार्यालय मुख्यालय में पैक्स का चुनाव होना है 35 मतदान

दौलतपर पंचायत से मनोज कमार उर्फ

सत्येंद्र सिंह,दौलतपुर से ही रिंटू सिंह,

शाहाबाद पंचायत से अखिलेश प्रसाद,

नदौल पंचायत से राजेंद्र प्रसाद और

नदौल से ही संगीता देवी, लखनौर

बेदौली से रविंद्र प्रसाद ,देवरिया

खिलाफ देर रात को छापेमारी

अभियान चलाया गया इस दौरान बाल्

ओवरलोड लदे एक दर्जन से ऊपर

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर अनशन पर उप मुख्य पार्षद



उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया. उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा) सदस्य

पदों के लिए दूसरे दिन पिछडा

पालीगंज से आससे के अनुसार वर्ग से 21, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से

पालीगंज में दुसरे दिन पैक्स चुनाव में 21, अनु सूचित जाति से 18 एवं

अध्यक्ष के लिए 22 उम्मीदवारों ने सामान्य वर्ग से 49 लोगो ने अपना

दाखिल किया पर्चा पालीगंज/प्रथम पर्चा प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी

चरण में प्रखंड में होने वाले पैक्स के समक्ष दाखिल किया. दहिया

चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन पंचायत से पत्रकार पंकज

बिख्तयारपर ( आससे )। नगर परिषद क्षेत्रातंर्गत न्यू राघोपुर में सुबह राजीव रंजन के घर में गैस लहकने से दो बच्चे क्रमश: दिलखुश कुमार १० वर्ष

एवं निशांत कुमार ५ वर्ष झुलस गये। आग से झुलसे बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र में चिकित्सा कराने के बाद गंभीर स्थिति में अपोलो अस्पताल में भर्ती

घर में घुसकर महिला से छेड़खानी व मारपीट

फतुहा ( आससे )। स्थानीय थाना क्षेत्र के सोनारू टोला में घर में घूसकर

छेड़छाड़, मारपीट करने से संबंधित मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में

सोनारू टोला निवासी राजेश सिंह कि पत्नी पनम देवी द्वारा फतहा थाना में

लिखित शिकायत की गई है। अपने लिखित आवेदन में पीड़िता ने आरोप लगाया

है कि जब हमारे पित घर पर दो युवक हमारे घूस गया हमसे रूपये की मांग

किया हमने उसे बताया कि पति जब आयेंगे तो उनसे आप बात किजिएगा इस

बात पर वह हमारे साथ मारपीट करने लगा जब हमारी पुत्री मुझे बचाने आई तो

तो मेरी जवान बेटी के साथ मारपीट करते हुए उसका कपड़ा फाड़ दिया। हल्ला

करने पर आस पास के लोग आने पर वे लोग भाग गए। आवेदन के आलोक में

आग से दोनों बच्चे झुलस गये।

सिंह,ने मुख्य रूप से अध्यक्ष पद के वही सदस्य पद के लिए 109 लिए नामांकन किया. निर्वाची



ट्रक नौबतपुर से बिक्रम की ओर जा रहा था जबकि गिट्टी लदा हाइवा बिक्रम से नौबतपुर आ रहा था। घटना में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मनेर में ट्रैक्टर से कुचलकर छात्रा का मौत

मनेर ( आससे )। मनेर थाना क्षेत्र के रामबाद गांव के समीप ट्रैक्टर से कुमार ने बताया कि पैक्स नमाकंन के कुचलकर एक 14 वर्षीय स्कूली छात्रा की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दुसरे दिन कड़ी सुरक्षा के बीच रामबाद पतिला निवासी राजेश राय का 14 वर्षीय पुत्री सीमा कुमारी स्कूल शांतिपूर्ण तरीके से उम्मीदवारों ने जा रही थी। इसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने स्कूली छात्रा को कुचल डाला। मौके अपना पर्चा दाखिल किया है. नामांकन पर ही उसकी मौत हो गई।सूचना मिलने के बाद पहुँची पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर भेज दिया है। छात्रा

के दौरान उम्मीदवारों के समर्थको की भीड प्रखंड मख्यालय के बाहर लगा बिहटा पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में पहुंचे दिग्गज

## पूर्व राज्यपाल, सांसद समेत कई गणमान्य ने सकूल के संथापक की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धां जलि

कराया गया। बीती रात्रि घर वाले गैस पर बैंगन पकाने के बाद पानी छिडककर बिहटा (आससे)। किशुनपुर के पश्चात दीप प्रज्वलन कर किया। इस बंद कर दिया था। सुबह जब गैस जलाया तब भभकने लगा तथा गैस से लगी

स्थित बिहटा पब्लिक स्कूल/बिहटा भौके पर क्षेत्र के सैकड़ो स्वत्रंत्रता आवासीय विद्यालय के प्रांगण में स्कुल सेनानी,अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी



के 16वीं वार्षिकोत्सव एवं स्कूल के संस्थापक बाबू बिजेन्द्र सिंह की 11वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मानयी गयी।कार्यक्रम में पंहुचे पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद,पूर्व प्रचार्य जैन कॉलेज जनेश्वर सिंह, हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ,संस्था निदेशक डॉ उदय कुमार सिंह,निदेशिका डॉ सोनी सिंह,जनसंघ संस्थापक सदस्य विकसित करने में सक्षम बनाती

भूमिका निभाने वाले चिकित्सक, समाजसेवी आदि को बिजेन्द्र श्री सम्मान एवं अंगवस्त्र से सम्मनित किया गया।वही पूर्व राज्यपाल गंगा अवसरों को खोलने में मदद करती है जीने के लिए महत्वपूर्ण कौशल रत्नेश्वर मिश्रा आदि ने बाबू बिजेन्द्र सिंह है।वही पूर्व सांसद रामेश्वर

संस्थापक बाब बिजेन्द सिंह क जीवनी पर विस्तार पर्वक चर्चा करते हुए कहा है कि वे जीवन प्रयत्न स्लग् जीवनपर्यंत सपना था कि बिहार के श

# पत्ना से अनबन पर युवक न

नौबतपर( आससे)। नौबतपर मे पत्नी से अनबन होने पर एक 32 वर्षीय युवक ने फंदे से लटककर जान दे दी हुई। मृतक विकास गुप्ता है। घटना वे बाद परिजनों में चीत्कार मचा है किसी बात को लेकर विकास क अपनी पत्नी से विवाद हुआ। इसवे बाद चुपके से वह कमरे में फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला

## रसोई गैस की तेज लौ से तीन बच्चे झुलसकर घायल



की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने प्रसाद, अनिल शुलभ आदि ने

**GOVT. OF BIHAR** 

BIHAR COMBINED ENTRANCE COMPETITIVE EXAMINATION BOARD I.A.S. Association Building, Near Patna Airport, Patna-14.

UNDER GRADUATE MEDICAL ADMISSION COUNSELLING (Ayush) [UGMAC(Ayush)]-2024

for BAMS / BHMS / BUMS in Govt / Pvt. Ayush Colleges of Bihar

Adv. No.- BCECEB[UGMAC(Ayush)]-2024/17 Dated 12.11.2024

विज्ञापन संख्या-BCECEB[UGMAC(Ayush)]-2024/15 दिनांक 10.11.2024 के क्रम में JGMAC(Ayush)-2024 से सम्बन्धित सभी पात्रता–प्राप्त अभ्यर्थियों, आयुष संस्थानों एवं सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त सन्दर्भित विज्ञापन द्वारा प्रकाशित UGMAC(Ayush)-2024 का Stray Vacancy Round Online Counselling हेतु **Registration-cum-Choice Filling** एवं अन्य सम्बन्धित कार्यक्रम को अगले आदेश तक

(2) Stray Vacancy Round Online Counselling हेतु पुनर्निर्धारित Registration-cum-Choice Filling एवं अन्य सम्बन्धित कार्यक्रम की सूचना बाद में प्रकाशित किया जायेगा।

परीक्षा नियंत्रक

पर बैठे लोगों ने कहा कि आवास योजना से गरीबों को वंचित किया जा रहा है।मनेर के अधिकांश गरीब लोग आवास विहीन हैं।ऐसे लोगों के पास अपनी निजी भूमि पर कच्चा मकान, झोपडी टिन शेड तो है.लेकिन जमीन एवं लाचार लोगों को आवास योजना से वंचित किया जा रहा है। देर शाम परिषद के कार्यपालक

पार्षदों से मिलकर तोडवाया।आवास योजना से वंचित हो राशि दिया गया है।अंचल कार्यालय से रहे लोगों को भुगतान का आश्वासन पर अनशन समाप्त हो गया। उप मुख्य पार्षद शंकर यादव ने बताया कि पूर्व की सरकार में लगान रसीद नहीं कटने

कार्यालय से मिले अनापत्ति प्रमाण पत्र अनशन पर हीं प्रधानमंत्री आवास योजना की कार्यपालक पदाधिकारी ने राशि दे दी। मगर वर्तमान अधिकारी ने नियमों का हवाला देते हुए भुगतान पर रोक लगा

कार्यालय पर मनमानी का आरोप भी लगाया। होल्डिंग टैक्स में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि, सफाई मजदूरों को एजेंसी द्वारा उचित मजदूरी नहीं देने व ठेके प्रथा को समाप्त करने की मांग भी कार्यपालक पदाधिकारी सत्येंद्र

विभाग को वापस लौटा दी किई लोगों

को तो इस योजना का पहली किस्त

खाते में मिली है।लेकिन शेष राशि

नियमों का हवाला देकर नहीं दी जा

गरीब आधे अधूरे बने मकान में

रहने को विवश हैं। नगर परिषद

प्रसाद वर्मा ने कुछ मांग को मानते हुए व कुछ पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के आश्वासन पर अनशन समाप्त कराया। ।मौके पर पार्षद रणजीत कमार, पार्षद प्रतिनिधि रवि रौशन

मसौढ़ी (आससे)। अनुमंडल मुख्यालय के एक मोहल्ले से गत दिनों प्रेम प्रसंग में भागी नाबालिक लड़की को उसके प्रेमी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लड़की का धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान कराया गया। इसके बाद लड़की को मेडिकल जांच कराई गई। कोर्ट के आदेश पर नाबालिक लड़की को जेल भेजा गया है। इधर

प्राप्त जानकारी के मुताबिक अनुमंडल मुख्यालय के एक मोहल्ले के रहने वाली नाबालिक लड़की पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के न्य यारपर मोहल्ले के रहने वाला प्रेमी आजाद कमार के साथ भाग गई थी। इस संबेंध में लडकी के परिजन के द्वारा मसौढी थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रेमी युगल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार प्रेमी युगल से पुलिस पूछताछ किया और प्रेमिका को कोर्ट ले जाकर

## सवारी गाड़ी के हेंगर में बोरा फंसने से परिचालन बाधित

**बिहटा (आससे )।** दानापुर रेल मंडल के बिहटा स्टेशन पर 03277 दानापुर बक्सर सवारी गाड़ी के हैंगर में फसा बोड़ा , 30 मिनट वाधित रहा परिचालन गाड़ी 11,23 बजे खड़ी हुई और 11,33 में खुली , गाड़ी खुलते ही ट्रेन के हैंगर में बोडा फस गया जिसके चलते चालक ने गाडी खडी कर सूचना कंट्रोल को

# तीन पेटी टेटा पैक के

**बिक्रम।** रानी तालाब थाना क्षेत्र के पतुत गांव के पास मंगलवार की शाम 5 बजे के करीब पुलिस गश्ती के दौरान एक मोटरसाइकिल चालक तेज रफ्तार से भाग रही थी पुलिस शक के आधार पर उसे पीछा कर उक्त मोटरसाइकिल सवार को धर दबोचा. बाइक पर रखे तीन कार्टन सामान की जांच की. जांच के दौरान तीनो कार्टून में टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब बरामद हुई है युवक की पहचान बराह गांव निवासी गोरख पासवान के रूप में की गई . गिरफ्तार युवक से पुलिस

लड़का को भी पूछताछ करने के बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज

# बयान कलम बंद कराई। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने लड़की को पटना जेल भेज दिया जबकि लड़का को मसौढ़ी उपकारा भेजा गया।

दिया , कंट्रोल द्वारा बिजली काट कर बोडा हटा गाड़ी को चलाया गया

# साथ युवक गिरफ्तार

# झगड़ा सलटाने गये अधेड़ की पीटकर हत्या,दो गिरफ्तार

पालीगंज। दो महिलाओं के बीच हो रहे झगडों को पिटाई कर दी. जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो मुलझाने गये एक अधेड को एक पक्ष के लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दिया . इस घटना आठ लोग घायल है । पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार किया है .साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है.

मामला सोमवार की देर शाम पालीगंज थाना क्षेत्र के करकट बिगहा गांव की है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है . जानकारी के मुताबिक करकट बिगहा गांव में दो महिलाएं किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा कर रही थी. इस बीच बगल के ही करीमन चंद्रवंशी 52 वर्ष दोनों महिलाओं को समझा -बुझाकर झगड़ा सुलझाने गए . इसी दौरान दोनों पक्ष के कई लोग वहां पहुंच गए . मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया . इस दरम्यान दोनों पक्ष आपस में उलझ गये. देखते ही देखते लाठी-डंडा चलने लगा. इस दौरान एक पक्ष ने करीमन चंद्रवंशी के जोरदार पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया

गई. इस झगडा में तीन पुरुष और पांच महिलाएं घायल हो गई. सभी का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है. मृतक करीमन चंद्रवंशी का बेटा बब्लू कुमार ने बताया कि उसके पिता दोनों पक्ष का झगड़ा सुलझाने गए थे लेकिन मामला और उलझ गया. जिसमें एक पक्ष के लोगों ने उनके पिता व उनके अन्य परिवारों को बुरी तरह पिटाई कर दिया गया. जिससे उनके पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो

घटना की सूचना पर पहुंची पालीगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नागेंद्र चंद्रवंशी व नरेंद्र चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर थाने लाई है. वहीं मृतक के बेटे के बयान पर 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया है. सूचना पर पटना से पहुंची जांच टीम ने भी घटना स्थल पर जाकर जांच किया .पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर

**नौबतपुर ( आससे )।** नौबतपुर के सरासत गांव में 50 हजार रंगदारी नहीं देने पर कोचिंग में पढाने वाले एक शिक्षक से गांव के हीं बदमाशों ने मारपीट कर 10 हजार रुपये छीन लिए। यह घटना तब घटी जब सरासत निवासी शिक्षक लवकुश कुमार कोचिंग में पढ़ाने जा रहे थे। इसे लेकर लवक्श ने थाने में बिनोद यादव, संजीत यादव और राम कुमार के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। लवकुश ने बताया कि बिनोद यादव ने उससे 50 हजार रंगदारी मांगी थी। जब उसने नहीं दिया तब बिनोद अपने साथियों के साथ मिलकर पढ़ाने जाने के दौरान पिस्तौल का भय दिखाकर

हजार रुपये छीन लिए।

### ADITYA VISION LIMITED

CIN - L32109BR1999PLC008783

Reg. office- Aditya House, M-20, Road No. 26, S K Nagar, Patna-800001, Bihar

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE **QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024** (All figures in INR Crores except EPS)

Half Year ended Year ended Quarter ended **Particulars** 30-09-2024 30-06-2024 30-09-2023 30-09-2024 30-09-2023 31-03-2024 Total income from operations 958.20 1749.81 377.70 890.46 315.60 1268.16 Net Profit /(Loss) for the period (before Tax. 15.98 71.82 87.80 61.65 Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period before Tax (after 3. 12.32 15.98 71.82 87.80 61.65 106.67 Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit /(Loss) for the period after tax 12.21 53.08 9.63 65.29 47.05 77.07 (after Exceptional and/or Extraordinary items) 5. Total Comprehensive Income (after tax) 12.21 53.08 9.63 65.29 47.05 77.07 Equity Share Capital (face value of Re.1/- each) 12.86 12.03 12.86 12.81 12.86 12.03 Earning per share (in Rs.) (a) Basic (after split up) 0.95 4.14 5.09 6.37 0.80 3.91 (b) Diluted (after split up) 0.95 4.11 0.80 5.08 3.91 6.32

### Notes to Standalone Financial Results:

- 1. The above financial results for the quarter and half year ended September 30, 2024 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on Tuesday, November 12, 2024.
- The Financial Results have been reviewed by the Auditors appointed for this purpose as required under regulation 33 of the SEBI (Listing
- Obligations and Disclosure Requirements). These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (IND AS) prescribed
- under Section 133 of the Companies Act 2013 as amended and other recognized accounting practices and policies to the extent possible. 4. The Company opened 11 showrooms in H1FY25 (including 6 stores in this quarter) taking its total stores count to 156 as on September 30, 2024.
- 5. In this quarter Company did a stock-split of 10 new shares for 1 old share ratio consequently which, paid-up value of shares of Rs. 10 each previously has been split into 10 new shares of Rs. 1 each.
- 6. Consequent to the split of shares, EPS of previous years have been adjusted accordingly to make it comparable.
- 7. Shares of the Company have been now listed on National Stock Exchange also for trading.

Sale of Company's products are seasonal in nature and hence it is not comparable sequentially.

- 8. The Company's business activity falls within a single primary business segment of Retail Business of electronic products such as Consumer Electronics, home appliances, mobility and IT products. As such, reporting is done on a single segment basis.
- 10. The financial result of the company is also available on stock exchange website and on the company website www.adityavision.in

Place: Patna रास्ता रोक दिया और मारपीट कर 10 Date: 12.11.2024 For and on behalf of Board of Directors of **Aditya Vision Limited** Sd/- Akanksha Arya (Company Secretary)